## अर्पण | By Ankur Goyal

मैंने सब कुछ तुम्ही से है पाया मुझे पत्थर से पारस बनाया मुझे दिखलाया खुशियां का दर्पण मेरा हर एक जनम प्रभु तुझे अर्पण करूं सेवा तेरी गाऊं तेरे भजन

मेरी जिन्दगी थी काजल सी काली तूने बना दी इसको रोशन दिवाली नाम को शान दी मुझको पहचान दी अपनी खुशबु से महकाया जीवन मेरा हर एक जनम प्रभु तुझे अर्पण करूं सेवा तेरी गाऊं तेरे भजन

जलती सी ज़िन्दगी को शीतल बनाया कांटो सी चुभ रही थी मखमल बनाया मेरा सब कुछ तू ही मुझको रखना यूँ ही तेरी कृपा कभी भी ना हो कम मेरा हर एक जनम प्रभु तुझे अर्पण करूं सेवा तेरी गाऊं तेरे भजन

तेरी ही सेवा में जीवन बिताऊं एहसान तेरे बाबा नहीं भूल पाऊं सोनू को आस है तू अगर पास है तो सुहाना है हर एक वो मौसम मेरा हर एक जनम प्रभु तुझे अर्पण करूं सेवा तेरी गाऊं तेरे भजन

 $\underline{\text{https://bhaktivandana.com/lyrics/\%e0\%a4\%85\%e0\%a4\%b0\%e0\%a5\%8d\%e0\%a4\%aa\%e0\%a4\%a3-by-ankur-goyal/}$